



उत्सव के लिए दिशानिर्देश

प्रेम करें | सेवा करें | गुणगान करें

दर्शन: प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सन्देश का गुणगान करना, जो भारत में लगभग 2000 वर्षों से विद्यमान है (घोषणा पत्र को पढ़ें)।

आधिकारिक आरम्भ: 3 जुलाई 2021 और उसके बाद प्रतिवर्ष।

इस उत्सव में कौन शामिल हो सकता है?: प्रभु यीशु मसीह के भारतीय मूल के सभी अनुयायी और वे सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सन्देश का गुणगान करना चाहते हैं।

आन्दोलन: भारत तथा संसार भर की विभिन्न भाषाओं, डिनोमिनेशन और पृष्ठभूमि में से प्रभु यीशु के चेलों द्वारा जनसाधारण के लिए आरम्भ किया गया एक उपक्रम।

उत्सव का विस्तार और प्रकृति: 3 जुलाई को स्थानीय तथा सार्वभौमिक तौर पर भारतीय मसीही दिवस / यीशु भक्ति दिवस के तौर पर मनाया जा सकता है। सारा उत्सव गैर-राजनीतिक और गैर-साम्प्रदायिक होना चाहिए, जिसमें जहाँ तक सम्भव हो सके, सभी भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को शामिल करने को बढ़ावा दिया जाए।

प्रेम से प्रेरित कार्य: 3 जुलाई 2021, दिन शनिवार को अपने समाज को आशीषित करने के लिए प्रेम और कृपा से प्रेरित कम से कम एक कार्य अवश्य करें।

- कलीसियाएँ/ संगतियाँ: एक योजना समिति का गठन करें, उसमें युवाओं और बच्चों को शामिल करें और कलीसिया से बाहर के समाज के लिए “केवल एक” कार्य करने की योजना बनाएँ।
- एकल व्यक्ति / परिवार: आपके साथ सहमत होने वाले मित्रों को साथ लेकर अपने समाज के लोगों के लिए प्रेम और कृपा से प्रेरित “केवल एक” कार्य करें।

उत्सव के लिए सुझाव:

- गरीब परिवारों में भोजन अथवा अच्छे वस्त्रों का वितरण करें।
- गलियाँ, सड़कें साफ करें, पेड़ लगाएँ, इत्यादि।
- निशुल्क शिविर लगाएँ, जैसे कि आँखों की जाँच, दाँतों की जाँच, चिकित्सा, शिक्षा, इत्यादि।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिसमें भारतीय संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि हो।
- कला, संगीत, लेखन, भाषण इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न आयु समूह के लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करें।
- नर्सिंग होम, अस्पताल, बन्दीगृह इत्यादि में सेवा के लिए जाएँ।

सोशल मीडिया और सार्वभौमिक उत्सव: बैनर छपवाएँ और पोस्टर बनाएँ। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपनी तस्वीर के साथ ICD/YBD का प्रेम और प्रतीक चिह्न लगाएँ। उत्सव की तस्वीरें लें और उन्हें फेसबुक / इंस्टाग्राम पर शेयर करें। इस बारे में ब्लॉग और लेख लिखें तथा जानकारी फैलाएँ।

उपलब्ध सामग्री: घोषणा पत्र, दर्शन और उत्सव के लिए दिशानिर्देश निशुल्क डाउनलोड के लिए यहाँ उपलब्ध हैं -

www.indianchristianday.com

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें: indianchristianday@gmail.com